



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2019/वैशाख 26, 1941  
No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2019/VAISAKHA 26, 1941

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

**आ.अ. 104(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 434/राज.-लो.स./2018(2) में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है।

राजस्थान राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मतपत्रों की गणना हेतु नियुक्ति से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद स्तम्भ (1) की प्रत्येक मद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः जोड़ी जाएगी।

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	प्रस्तावित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (मतगणना)
1	2
1. गंगानगर (अ.जा.)	11. बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर), श्रीगंगानगर 12. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर
	13. सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर 14. बाल विकास परियोजना अधिकारी (ग्रामीण), श्रीगंगानगर 15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ 16. उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर 17. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हनुमानगढ़ 18. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीलीबंगा 19. भूमि अवाप्ति अधिकारी (तहसीलदार), नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर 20. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर

	21 नायब तहसीलदार, उप तहसील, बीझवायला
	22 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पदमपुर
	23 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीविजयनगर
	24 नायब तहसीलदार, उप तहसील, तलवाडा झील
	25 तहसीलदार, भू-अभिलेख, कलेक्ट्रेट, हनुमानगढ़
	26 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक पीलीबंगा
2. बीकानेर (अ.जा.)	11 उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर
	12 सहायक उपनिवेशन आयुक्त, सतर्कता, बीकानेर
	13 सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग, बीकानेर
	14 रजिस्ट्रार, स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय, बीकानेर
	15 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर
	16 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), बीकानेर
	17 उपखण्ड अधिकारी, पूगल
	18 उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर
	19 अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर
3. चूरू	11 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर
	12 तहसीलदार, नोहर
	13 तहसीलदार, भादरा
	14 तहसीलदार, राजगढ़ (चूरू)
	15 तहसीलदार, तारानगर
	16 तहसीलदार, सरदारशहर
	17 तहसीलदार, रतनगढ़
	18 तहसीलदार, सुजानगढ़
	19 तहसीलदार, बीदासर
	20 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोहर
	21 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भादरा
	22 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरू)
	23 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तारानगर
	24 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर
	25 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चूरू
	26 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रतनगढ़
	27 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुजानगढ़
	28 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीदासर
	29 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नोहर
	30 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका भादरा
	31 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़ (चूरू)
	32 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका तारानगर
	33 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सरदारशहर
	34 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रतनगढ़
	35 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका राजलदेसर
	36 नायब तहसीलदार, भादरा
	37 नायब तहसीलदार, छानीबड़ी
	38 नायब तहसीलदार, सिद्धमुख
	39 नायब तहसीलदार, सरदारशहर

	40 नायब तहसीलदार, भानीपुरा
	41 नायब तहसीलदार, सालासर (सुजानगढ़)
	42 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नोहर
	43 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)
	44 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रथम), भादरा
	45 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), भादरा
	46 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तारानगर
	47 ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, भादरा
	48 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजगढ़ (चूरू)
	49 अधिशाषी अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, तारानगर
	50 संदर्भ व्यक्ति, समग्र शिक्षा अभियान, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सरदारशहर
	51 सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, चूरू
	52 अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू
	53 जिला श्रम कल्याण अधिकारी, चूरू
4. झुझुनू	11 उप वन संरक्षक, झुझुनू
	12 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, चिडावा
	13 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़
	14 सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, झुझुनू
	15 उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, झुझुनू
	16 उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, झुझुनू
	17 परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति विकास निगम, झुझुनू
	18 मुख्य आयोजना अधिकारी, झुझुनू
	19 जिला रोजगार अधिकारी, झुझुनू
	20 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कलेक्ट्रेट, झुझुनू
	21 उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, झुझुनू
	22 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नवलगढ़
	23 सहायक निदेशक, सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, झुझुनू
	24 प्रबन्धक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झुझुनू
	25 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, उदयपुरवाटी
	26 उप निदेशक, कृषि विस्तार, झुझुनू
	27 जिला आबकारी अधिकारी, झुझुनू
	28 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, खेतड़ी
	29 उप पंजीयक, झुझुनू
	30 तहसीलदार, झुझुनू
	31 तहसीलदार, मलसीसर
	32 तहसीलदार, चिडावा
	33 तहसीलदार, सूरजगढ़
	34 तहसीलदार, खेतड़ी
	35 तहसीलदार, बुहाना
	36 तहसीलदार, नवलगढ़
	37 तहसीलदार, उदयपुरवाटी
	38 नायब तहसीलदार, मण्डावा
	39 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सूरजगढ़
	40 प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक झुझुनू

41	तहसीलदार, फतेहपुर
42	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरवाटी
43	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंवरा
44	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छावश्री
45	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भिर
46	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भडोन्दाकलां
47	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दोरासर
48	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीलवा
49	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नौरंगपुरा
50	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढिगाल
51	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिडानिया
52	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रामपुरा
53	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लादूसर
54	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलसीसर
55	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुल्हरियो की ढाणी
56	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलसीसर
57	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीमसर
58	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिरोल
59	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबडी बलौदा
60	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांय
61	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुमावास
62	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओजटू
63	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुलताना
64	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नूनिया गोठडा
65	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुडानिया
66	प्रधानाचार्य, राजकला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिडावा
67	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लिखवा
68	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोवला
69	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस्लामपुर
70	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, परसरामपुरा
71	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुडाना
72	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिंजुसर
73	रिसोर्स पर्सन, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सूरजगढ़
74	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुजरवास
75	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थली
76	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाम्बी सहड
77	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचेरी बड़ी
78	व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झांझा
79	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़सरी का बास
80	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोडकी
81	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रसूलपुर
82	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलेलपुरा
83	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनपुरा
84	प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चुडैला

	85 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लादूसर
	86 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कैरु
	87 प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, निवाई
	88 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नवलगढ़
	89 रिसोर्स पर्सन, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नवलगढ़
	90 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखल
	91 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनवाड़ी
	92 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झेरली
	93 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिडानीया
	94 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारी
	95 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनगोटड़ी
	96 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेही कला
	97 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोलसीया
	98 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कासिमपुरा
	99 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दोरासर
	100 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुडाना
	101 व्याख्याता, जे.पी. जानू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झुंझुनूं
	102 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयासर
	103 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डुमोली खुर्द
	104 अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक, शिक्षा अधिकारी, सूरजगढ़
	105 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुरवाटी
	106 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ककराना
5. सीकर	11 तहसीलदार, रामगढ़, फतेहपुर
	12 बल विकास परियोजना अधिकारी, लक्ष्मणगढ़
	13 तहसीलदार, धोद
	14 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धोद
	15 नायब तहसीलदार, लोसल, धोद
	16 तहसीलदार, सीकर
	17 प्रोग्रामर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पिपराली, सीकर
	18 तहसीलदार, दांतारामगढ़
	19 नायब तहसीलदार, पलसाना, दांतारामगढ़
	20 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दांतारामगढ़
	21 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खण्डेला
	22 सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्डेला
	23 अधिष्ठापी अधिकारी, नगर पालिका, रींगस, खण्डेला
	24 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, खण्डेला
	25 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बासड़ी, खण्डेला
	26 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना
	27 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पाटन
	28 नायब तहसीलदार, पाटन
	29 नायब तहसीलदार, नीमकाथाना
	30 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर
	31 तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
	32 नायब तहसीलदार, अजीतगढ़, श्रीमाधोपुर, सीकर

	33 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौमूं
	34 व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरीजा, चौमूं
6. जयपुर ग्रामीण	11 परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), जयपुर
	12 वरिष्ठ लेखाधिकारी, सैटलमेंट कमीशनर, जयपुर
	13 वरिष्ठ लेखाधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर
	14 वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-4) विभाग, सचिवालय, जयपुर
	15 वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (ऑडिट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
	16 वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर
	17 वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.), वन विभाग, जयपुर
	18 वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर
	19 वरिष्ठ लेखाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
	20 लेखाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक (सी.सी.एफ.), वन विभाग, जयपुर
	21 लेखाधिकारी (ऑडिट पार्टी), निरीक्षण विभाग, जयपुर
	22 लेखाधिकारी, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर
	23 लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (आर.एस.डब्ल्यू.सी.), जयपुर
	24 लेखाधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर
	25 लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग, सचिवालय, जयपुर
	26 लेखाधिकारी, जन जातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (टी.ए.डी.), सचिवालय, जयपुर
	27 लेखाधिकारी, निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
	28 लेखाधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.), जयपुर
	29 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड
	30 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), रोजगार विभाग
	31 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), प्रोजेक्ट, सी.एस.सी. 2.0 स्कीम, राजकॉम्प
	32 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), वाणिज्यिक कर विभाग
	33 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यू.आई.डी. (कोटरमिनस प्रोजेक्ट)
	34 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), न्याय विभाग
	35 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सैटलमेंट विभाग
	36 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स
	37 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), लोक निर्माण विभाग
	38 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
	39 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सिंचाई विभाग (जल संसाधन)
	40 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), उद्योग विभाग
	41 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), वाणिज्यिक कर विभाग
	42 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
7. जयपुर	11 लेखाधिकारी, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर
	12 लेखाधिकारी (ऑडिट पार्टी), संयुक्त निदेशक (ROI), LFAD, जयपुर
	13 लेखाधिकारी, महात्मा गाँधी नरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
	14 लेखाधिकारी, स्टेट कंज्यूमर फोरम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
	15 लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर
	16 लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर
	17 अतिरिक्त कोषाधिकारी, कोषालय (सचिवालय), जयपुर
	18 लेखाधिकारी, वित्त (व्यय-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर
	19 लेखाधिकारी, इन्दिरा गाँधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, जयपुर

	20 लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
	21 लेखाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उत्तर), जयपुर
	22 लेखाधिकारी, निदेशक, मत्स्य विभाग, जयपुर
	23 लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर
	24 लेखाधिकारी, आयुक्तालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
	25 लेखाधिकारी, जनाना अस्पताल, जयपुर
	26 लेखाधिकारी, राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर
	27 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर
	28 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर
	29 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), वन विभाग, जयपुर
	30 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर
	31 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर
	32 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर
	33 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर
	34 एनलिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), देवस्थान विभाग, जयपुर
8. अलवर	11 तहसीलदार, तिजारा
	12 उप पंजीयक, भिवाड़ी
	13 तहसीलदार, किशनगढबास
	14 नायब तहसीलदार, कोटकासिम
	15 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, किशनगढबास
	16 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कोटकासिम
	17 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मुण्डावर
	18 बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुण्डावर
	19 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जसाई
	20 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पेहल
	21 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बेहरोज
	22 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपली
	23 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सियाखोह
	24 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उलाहेडी
	25 एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़
	26 एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़
	27 एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़
	28 एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़
	29 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमराणा
	30 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खोहरी, बहरोड़
	31 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हुडियाकला, नीमराणा
	32 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कायसा, नीमराणा
	33 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुंथी, बहरोड़
	34 नायब तहसीलदार, बहादुरपुर
	35 नायब तहसीलदार, पी.टी.एस., देवखेड़ा, अलवर
	36 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर
	37 अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर
	38 नायब तहसीलदार, बडोदामेव
	39 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रामगढ़

	40 नायब तहसीलदार, रैणी
	41 नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
9. भरतपुर (अ.जा.)	11 तहसीलदार, कटूमर
	12 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कटूमर
	13 बाल विकास परियोजना अधिकारी, कटूमर
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पहाड़ी
	15 तहसीलदार, नगर
	16 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नगर
	17 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्हेर
	18 तहसीलदार, डीग
	19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, डीग
	20 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्हेर
	21 उप पंजीयक, भरतपुर
	22 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेवर
	23 तहसीलदार, नदबई
	24 बाल विकास परियोजना अधिकारी, नदबई
	25 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नदबई
	26 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर
	27 तहसीलदार, वैर
	28 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपवास
	29 तहसीलदार, बयाना
	30 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डीग
	31 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वैर
	32 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बयाना
	33 बाल विकास परियोजना अधिकारी, वैर
	34 बाल विकास परियोजना अधिकारी, बयाना
10. करौली-धौलपुर (अ.जा.)	11 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मण्डरायल
	12 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर
	13 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सैपऊ
	14 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बसेडी
	15 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बाडी
	16 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धौलपुर
	17 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजाखेड़ा
	18 तहसीलदार, टोडाभीम
	19 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडाभीम
	20 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नादौती
	21 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौन
	22 महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, हिण्डौन
	23 आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन
	24 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हिण्डौन
	25 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, करौली
	26 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, करौली
	27 तहसीलदार, सपोटरा
	28 तहसीलदार, हिण्डौन



	29 तहसीलदार, टोडाभीम
	30 तहसीलदार, करौली
	31 तहसीलदार, सैपऊ
	32 बाल विकास परियोजना अधिकारी, धौलपुर
11. दौसा (अ.ज.जा.)	11 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ पचवारा
	12 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान
	13 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा
	14 अधीक्षण अभियंता, जलग्रहण विभाग दौसा
	15 तहसीलदार, सिकराय
	16 तहसीलदार, दौसा
	17 तहसीलदार, लवाण
	18 तहसीलदार, लालसोट
	19 तहसीलदार, थानागाजी
	20 तहसीलदार, बस्सी
	21 तहसीलदार, चाकसू
	22 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिकराय
	23 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी
	24 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सिकराय
	25 महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांदीकुई
	26 अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बांदीकुई
	27 सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, महवा
12. टोंक-सवाई माधोपुर	11 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली
	12 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू
	13 उप प्राचार्य, एपीआरटीएस, टोंक
	14 भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोंक
	15 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बौली
	16 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलारना डूंगर
	17 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाडा
	18 अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
	19 तहसीलदार, मालपुरा
	20 तहसीलदार, टोडारायसिंह
	21 तहसीलदार, निवाई
	22 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
	23 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
	24 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर
	25 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक
	26 अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (बीसलपुर), देवली
13. अजमेर	11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
	12 उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (दक्षिण)
	13 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भिनाय
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़
	15 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन
	16 उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर (उत्तर)
	17 भू-प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर

	18 उप निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर
	19 उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर
	20 उपायुक्त (प्रशासन), नगर निगम, अजमेर
	21 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर
14. नागौर	11 तहसीलदार, डीडवाना
	12 तहसीलदार, खीवसर
	13 तहसीलदार, मकराना
	14 तहसीलदार, परबतसर
	15 तहसीलदार, नांवा
	16 तहसीलदार, कुचामन
	17 नायब तहसीलदार, डेह
	18 नायब तहसीलदार, भकरी
	19 नायब तहसीलदार, मौलासर
	20 नायब तहसीलदार, मूण्डवा
	21 नायब तहसीलदार, नागौर
	22 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नागौर
	23 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मूण्डवा
	24 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जायल
	25 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मकराना
	26 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, परबतसर
	27 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुचामन
	28 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डीडवाना
	29 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लाड़नू
	30 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खीवसर
	31 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नावां
	32 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मौलासर
15. पाली	11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली
	12 राजस्व अपील अधिकारी, पाली
	13 सचिव, नगर सुधार न्यास, पाली
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर
	15 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी
	16 तहसीलदार, सोजत
	17 तहसीलदार, पाली
	18 तहसीलदार, बाली
	19 तहसीलदार, सुमेरपुर
	20 तहसीलदार, मारवाड जंक्शन
	21 तहसीलदार, ओंसिया
	22 तहसीलदार, भोपालगढ़
	23 तहसीलदार, बिलाडा
	24 तहसीलदार, पिपाडसिटी
	25 तहसीलदार, रायपुर
	26 तहसीलदार, रानी
	27 तहसीलदार, देसूरी
	28 तहसीलदार, रोहट

16. जोधपुर	11 उपनिदेशक, स्थानीय निकाय, जोधपुर
	12 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालेसर
	13 उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
	14 उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
	15 उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
	16 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर
	17 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप
	18 उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ सिटी, जोधपुर
	19 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भणियाणा
	20 रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
	21 अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी प्रशासन, जोधपुर
	22 जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर
	23 उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
	24 प्रोटोकॉल अधिकारी, जोधपुर
	25 तहसीलदार, देचू
	26 नायब तहसीलदार, कुडी
	27 तहसीलदार, बालेसर
	28 नायब तहसीलदार, लूणी
	29 तहसीलदार, झंवर
	30 तहसीलदार, पीपाड़
	31 रजिस्ट्रार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
	32 रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जोधपुर
	33 सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
	34 अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, शहर-द्वितीय, जोधपुर
	35 प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
17. बाड़मेर	11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
	12 राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर
	13 सचिव, नगर विकास न्यास, बाड़मेर
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामसर
	15 भूमि अवाप्ति अधिकारी, सी.आई.ई.एल., बाड़मेर
	16 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़
18. जालोर	11 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
	12 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सायला
	13 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिवगंज
	15 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पिण्डवाड़ा
19. उदयपुर (अ.ज.जा.)	11 तहसीलदार, बडगांव
	12 तहसीलदार सराडा
	13 तहसीलदार, ऋषभदेव
	14 नायब तहसीलदार, बारापाल
	15 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उदयपुर
	16 अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयपुर
20. बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	11 तहसीलदार, घाटोल
	12 तहसीलदार, गढ़ी

	13 तहसीलदार, बांसवाड़ा
	14 तहसीलदार, बागीदौरा
	15 तहसीलदार, कुशलगढ़
	16 तहसीलदार, डूंगरपुर
	17 तहसीलदार, सागवाड़ा
	18 तहसीलदार, सीमलवाड़ा
21. चित्तौड़गढ़	11 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला
	12 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गंगरार
	13 नायब तहसीलदार, छोटीसादडी
	14 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बडीसादडी
	15 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मावली
	16 तहसीलदार, राशमी
	17 तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
	18 तहसीलदार, वल्लभनगर
	19 तहसीलदार, प्रतापगढ़
	20 तहसीलदार गंगरार
	21 तहसीलदार, निम्बाहेडा
	22 तहसीलदार, बडीसादडी
	23 तहसीलदार, कपासन
	24 तहसीलदार, भदेसर
22. राजसमन्द	11 तहसीलदार, ब्यावर
	12 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियाबडी
	13 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रियाबडी
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट
	15 तहसीलदार, रेलमगरा
	16 सम्पदा अधिकारी, मन्दिर मण्डल, नाथद्वारा
	17 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द
	18 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवगढ़
	19 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा
	20 तहसीलदार, डेगाना
	21 तहसीलदार, जैतारण
	22 तहसीलदार, रायपुर
	23 तहसीलदार, खमनोर
	24 तहसीलदार, भीम
	25 तहसीलदार, आमेट
	26 तहसीलदार, राजसमन्द
	27 तहसीलदार, कुंवारिया
	28 तहसीलदार, नाथद्वारा
	29 तहसीलदार, चारभुजा
	30 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भीम
	31 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़
	32 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुंभलगढ़
	33 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेट

	34 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेलमगरा
	35 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खमनोर
	36 सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति, डेगाना
23. भीलवाड़ा	11 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिजोलिया
	12 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा
	13 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ी
	14 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर
	15 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बदनोर
24. कोटा	11 उपसचिव, नगर विकास न्यास (द्वितीय), कोटा
	12 उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा
	13 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा
	14 जिला रसद अधिकारी, कोटा
	15 उप सचिव, नगर विकास न्यास (प्रथम), कोटा
	16 उपायुक्त, नगर निगम (मुख्यालय), कोटा
	17 जिला आबकारी अधिकारी, कोटा
	18 भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा
	19 उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, कोटा
	20 जिला परिवहन अधिकारी, कोटा
	21 कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
	22 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोटा
	23 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कनवास
	24 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद
	25 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तालेड़ा
	26 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाखेरी
	27 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी
	28 तहसीलदार, रामगंजमण्डी
	29 तहसीलदार, कनवास
	30 तहसीलदार, तालेड़ा
25. झालावाड़-बारां	11 तहसीलदार पचपहाड़
	12 तहसीलदार गंगधार
	13 तहसीलदार, पिड़ावा
	14 तहसीलदार सुनेल
	15 तहसीलदार बकानी
	16 नायब तहसीलदार, असनावर
	17 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
	18 तहसीलदार मनोहरस्थाना

स्तम्भ 2 में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी लोक-सभा साधारण चुनाव, 2019 पूरा होने की तारीख से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

[सं. 434/राज-लो.स./2018(2)]

आदेश से,

राहुल शर्मा, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2019

**O.N. 104(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/RJ-HP /2018(2) dated 13th September, 2018, as amended from time to time.

In column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Rajasthan for the purpose of counting of votes, after the existing entries against each of the item in column (1), the following corresponding entries shall respectively be added :—

**TABLE**

<b>No. &amp; Name of Parliamentary Constituency</b>	<b>Assistant Returning Officer (Counting)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1. Ganganagar (SC)	11. Child Development Project Officer (Urban), Sriganganagar
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Padampur
	13. Assistant Director, Woman and Child Development Department, Sriganganagar
	14. Child Development Project Officer (Rural), Sriganganagar
	15. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Suratgarh
	16. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Rawatsar
	17. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Hanumangarh
	18. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Pilibanga
	19. Land Acquisition Officer (Tehsildar) Urban Improvement Trust, Sriganganagar
	20. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Raisinghnagar
	21. Naib Tehsildar, Sub Tehsil, Beenjbyala
	22. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Padampur
	23. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Srivijaynagar
	24. Naib Tehsildar, Sub Tehsil, Talwara Jheel
	25. Tehsildar, Land Record, Collectorate, Hanumangarh
	26. Block Elementary Education Officer, Block Pilibanga
2. Bikaner (SC)	11. Deputy Inspector General, Registration & Stamps, Bikaner
	12. Assistant Colonization Commissioner, Vigilance, Bikaner
	13. Assistant Director, Public Services Administrative Reforms and Coordinator Department, Bikaner
	14. Registrar, Swami Keshwanand Agriculture University, Bikaner
	15. Additional Chief Executive Officer, Bikaner
	16. Assistant Collector & Executive Magistrate (Headquarter), Bikaner
	17. Sub Divisional Officer, Poogal
	18. Deputy Commissioner Colonization, Bikaner
	19. Additional Collector & Additional District Magistrate (City), Bikaner
3. Churu	11. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bidasar
	12. Tehsildar, Nohar
	13. Tehsildar, Bhadra
	14. Tehsildar, Rajgarh (Churu)
	15. Tehsildar, Taranagar
	16. Tehsildar, Sardarshahar

	17. Tehsildar, Ratangarh
	18. Teshildar, Sujangarh
	19. Tehsildar, Bidasar
	20. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Nohar
	21. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Bhadra
	22. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Rajgarh (Churu)
	23. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Taranagar
	24. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Sardarshahar
	25. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Churu
	26. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Ratangarh
	27. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Sujangarh
	28. Block Development Officer Panchayat Samiti, Bidasar
	29. Executive Officer, Municipal Board, Nohar
	30. Executive Officer, Municipal Board, Bhadra
	31. Executive Officer, Municipal Board, Rajgarh (Churu)
	32. Executive Officer, Municipal Board, Taranagar
	33. Executive Officer, Municipal Board, Sardarshahar
	34. Executive Officer, Municipal Board, Ratangarh
	35. Executive Officer, Municipal Board, Rajaldesar
	36. Naib Tehsildar, Bhadra
	37. Naib Tehsildar, Chhanibadi
	38. Naib Tahsildaar, Sidhmukha
	39. Naib Tahsildaar, Sardarshahar
	40. Naib Tahsildaar, Bhanipura
	41. Naib Tehsildar, Salasar (Sujangarh)
	42. Chief Block Education Officer, Nohar
	43. Chief Block Education Officer, Rajgarh (Churu)
	44. Additional Chief Block Education Officer (First) Bhadra
	45. Additional Chief Block Education Officer (Second) Bhadra
	46. Additional Chief Block Education Officer, Taranagar
	47. Block Statistics Officer, Bhadra
	48. Executive Engineer, Public Works Department, Rajgarh (Churu)
	49. Executive Engineer, Indira Gandhi Nahar Pariyojana, Taranagar
	50. Recourse Person, Samgra Shiksha Abhiyan, Chief Block Educational Officer, Sardarshahar
	51. Assistance Director Women Empowerment Department, Churu
	52. Executive Engineer, Public Health and Engineering Department, Churu
	53. District Labour Officer, Churu
4. Jhunjhunu	11. Deputy Conservator of Forest, Jhunjhunu
	12. Programmer, Department of Information & Technology, Chirawa
	13. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Surajgarh
	14. Assistant Commissioner, Commercial Taxes, Jhunjhunu
	15. Deputy Registrar, Co-Operative Society, Jhunjhunu
	16. Deputy Director, Women Empowerment Department, Jhunjhunu
	17. Project Manager, Schedule Caste Development Corporation, Jhunjhunu
	18. Chief Planning Officer, Jhunjhunu
	19. District Employment Officer, Jhunjhunu
	20. Programmer, Department of Information & Technology, Collectorate, Jhunjhunu

21. Deputy Director, State Insurance & General Provident Fund Department, Jhunjhunu
22. Programmer, Department of Information & Technology, Nawalgarh
23. Assistant Director, Statistics Department, Jhunjhunu
24. Managing Director, Central Co-operative Bank, Jhunjhunu
25. Programmer, Department of Information & Technology, Udaipurwati
26. Deputy Director, Agriculture, Jhunjhunu
27. District Excise Officer, Jhunjhunu
28. Programmer, Department of Information & Technology, Khetri
29. Sub Registrar, Jhunjhunu
30. Tehsildar, Jhunjhunu
31. Tehsildar, Malsisar
32. Tehsildar, Chirawa
33. Tehsildar, Surajgarh
34. Tehsildar, Khetri
35. Tehsildar, Buhana
36. Tehsildar, Nawalgarh
37. Tehsildar, Udaipurwati
38. Naib Tehsildar, Mandawa
39. Programmer, Department of Information & Technology, Surajgarh
40. Programmer, Department of Information & Technology, Block, Jhunjhunu
41. Tehsildar, Fatehpur.
42. Principal, Government Senior Secondary School, Udaipurwati
43. Lecturer, Government Senior Secondary School, Chanwra
44. Lecturer, Government Senior Secondary School, Chawsari
45. Lecturer, Government Senior Secondary School, Bhirr
46. Principal, Government Senior Secondary School, Bharonda Kalan
47. Principal, Government Senior Secondary School, Dorasar
48. Principal, Government Senior Secondary School, Beelwa
49. Principal, Government Senior Secondary School, Norangpura
50. Principal, Government Senior Secondary School, Dhigal
51. Principal, Government Senior Secondary School, Gidania
52. Principal, Government Senior Secondary School, Rampura
53. Principal, Government Senior Secondary School, Ladusar
54. Principal, Government Senior Secondary School, Malsisar
55. Lecturer, Government Senior Secondary School, Kulhariyo Ki Dhani
56. Lecturer, Government Senior Secondary School, Malsisar
57. Principal, Government Senior Secondary School, Bhimsar
58. Principal, Government Senior Secondary School, Birol
59. Principal, Government Senior Secondary School, Dabri Baloda
60. Lecture, Government Senior Secondary School, Bay
61. Lecture, Government Senior Secondary School, Kumawas
62. Principal, Government Senior Secondary School, Ojatu
63. Lecturer, Government Senior Secondary School, Sultana
64. Principal, Government Senior Secondary School, Nunia Gothra
65. Principal, Government Senior Secondary School, Budania
66. Principal, Rajkala Govt. Girls Senior Secondary School, Chirawa
67. Principal, Government Senior Secondary School, Likhwa
68. Principal, Government Senior Secondary School, Gowala



	69. Principal, Government Senior Secondary School, Islampur
	70. Lecturer, Government Senior Secondary School, Parasrampura
	71. Lecturer, Government Senior Secondary School, Budana
	72. Principal, Government Senior Secondary School, Binjusa
	73. Resource Person, Office of Chief Block Education Officer, Surajgarh
	74. Principal, Government Senior Secondary School, Gujarwas
	75. Principal, Government Senior Secondary School, Thali
	76. Lecturer, Government Senior Secondary School, Lambi Sahad
	77. Lecturer, Government Senior Secondary School, Pachari Badi
	78. Lecturer, Government Senior Secondary School, Jhanjha
	79. Principal, Government Senior Secondary School, Badsari Ka Bas
	80. Principal, Government Senior Secondary School, Bhorki
	81. Principal, Government Senior Secondary School, Rasulpur
	82. Principal, Government Senior Secondary School, Dalelpura
	83. Principal, Government Senior Secondary School, Kishanpura
	84. Principal, Government Senior Secondary School, Churela
	85. Lecturer, Government Senior Secondary School, Ladusar
	86. Principal, Government Senior Secondary School, Kairu
	87. Head Master, Government Secondary School, Niwai
	88. Additional Chief Block Education Officer, Office of Chief Block Education Officer, Nawalgarh
	89. Resource Person, Office of Chief Block Education Officer, Nawalgarh
	90. Principal, Government Senior Secondary School, Jakhal
	91. Principal, Government Senior Secondary School, Mohanbari
	92. Principal, Government Senior Secondary School, Jherli
	93. Lecturer, Government Senior Secondary School, Gidania
	94. Principal, Government Senior Secondary School, Sari
	95. Principal, Government Senior Secondary School, Bangothari
	96. Principal, Government Senior Secondary School, Sehi Kalan
	97. Principal, Government Senior Secondary School, Kolsiya
	98. Lecturer, Government Senior Secondary School, Kasimpura
	99. Lecturer, Government Senior Secondary School, Dorasar
	100. Principal, Government Senior Secondary School, Budana
5. Sikar	101. Lecturer, J.P.Janu Government Senior Secondary School, Jhunjhunu
	102. Lecturer, Government Senior Secondary School, Nayasari
	103. Principal, Government Senior Secondary School, Dumoli Khurd
	104. Additional Chief Block Education Officer, Surajgarh
	105. Lecturer, Government Senior Secondary School, Udaipurwati
	106. Lecturer, Government Senior Secondary School, Kakrana
	11. Tehsildar, Ramgarh
	12. Child Development Project Officer, Laxmangarh
	13. Tehsildar, Dhond
	14. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Dhond
	15. Naib Tehsildar, Losal
	16. Tehsildar, Sikar
	17. Programmer, Department of Information & Technology, Piprali
	18. Tehsildar, Dantaramgarh
	19. Naib Tehsildar, Palsana

	20. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Dantaramgarh
	21. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Khandela
	22. Assistant Engineer, Public Health Engineering Department, Khandela
	23. Executive Officer, Nagar Palika, Reengus
	24. Chief Block Education Officer, Khandela
	25. Principal, Government Senior Secondary School, Baseri
	26. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Neem Ka Thana
	27. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Patan
	28. Naib Tehsildar, Patan
	29. Naib Tehsildar, Neem Ka Thana
	30. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Srimadhapur
	31. Tehsildar, Srimadhapur
	32. Naib Tehsildar, Ajitgarh
	33. Lecturer, Government Senior Secondary School, Chomu
	34. Lecturer, Government Senior Secondary School, Morija
6. Jaipur Rural	11. Project Officer (Accounts), Zila Parishad (RD- Cell) Jaipur
	12. Senior Accounts Officer, Settlements Commissioner, Jaipur
	13. Senior Accounts Officer, Transport Department, Jaipur
	14. Senior Accounts Officer, Finance (Exp.IV) Department, Secretariat, Jaipur
	15. Senior Accounts Officer, Finance (Audit) Department, Secretariat, Jaipur
	16. Senior Accounts Officer, Finance (Exp.I) Department, Secretariat, Jaipur
	17. Senior Accounts Officer, Principal Chief Conservator of Forest (PCCF) Forest Department, Jaipur.
	18. Senior Accounts Officer, Rajasthan Medical Education Society, Jaipur
	19. Senior Accounts Officer, Treasuries and Accounts Department, Jaipur
	20. Accounts Officer, Chief Conservator of Forest, Forest Department, Jaipur
	21. Accounts Officer (Audit Party), Inspection Department, Jaipur
	22. Accounts Officer, Sainik Kalyan Department, Jaipur
	23. Accounts Officer, Rajasthan State Warehousing Corporation (RSWC) Jaipur
	24. Accounts Officer, Commercial Taxes Department, Jaipur
	25. Accounts Officer, Finance (Exp.V) Department, Secretariat, Jaipur
	26. Accounts Officer, Tribal Area Development Department (TAD), Secretariat, Jaipur
	27. Accounts Officer, Director, Agriculture Marketing Department, Jaipur
	28. Accounts Officer, Public Health Engineering Department (PHED), Jaipur
	29. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Rajasthan Medical Services Corporation Limited
	30. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Employment Department
	31. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Project - CSC 2.0 Scheme, RajComp
	32. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Commercial Taxes Department,
	33. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Department of Information & Technology, UID Project (Coterminous Project)
	34. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Justice Department
	35. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Settlement Department
	36. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills
	37. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Public Works Department
	38. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Economics & Statistics Department
	39. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Irrigation Department (Water Resources Department)

	40. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Industries Department
	41. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Commercial Taxes Department Headquarter
	42. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Science & Technology Department
7. Jaipur	11. Accounts Officer, Department of Personnel, Secretariat, Jaipur
	12. Accounts Officer (Audit Party), Joint Director (R.O.I.), LFAD, Jaipur
	13. Accounts Officer, Mahatma Gandhi NREGS, Rural Development & Panchayat Raj Department, Jaipur.
	14. Accounts Officer, State Consumer Forum, Food & Civil Supplies Department, Jaipur
	15. Accounts Officer, Rural Development Department, Secretariat, Jaipur
	16. Accounts Officer, Women Empowerment Department, Jaipur
	17. Additional Treasury Officer, Treasury (Secretariat) Jaipur
	18. Accounts Officer, Finance (Exp.II) Department, Secretariat, Jaipur
	19. Accounts Officer, Indira Gandhi Panchayati Raj Sansthan (IGPRS), Jaipur
	20. Accounts Officer, Rajasthan State Beverages Corporation Ltd. (RSBCL) Jaipur
	21. Accounts Officer, Regional Transport Officer (North) Jaipur
	22. Accounts Officer, Director, Fisheries Department, Jaipur
	23. Accounts Officer, Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills (RSGSM), Jaipur
	24. Accounts Officer, Commissionerate, Social Justice and Empowerment Department (SCP), Jaipur
	25. Accounts Officer, Zenana Hospital, Jaipur
	26. Accounts Officer, State Insurance & General Provident Fund Department, Jaipur
	27. Analyst cum Programmer (Deputy Director), State Insurance & Provident Fund Department
	28. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department
	29. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Forest Department
	30. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Harish Chandra Mathur, Rajasthan State Institute of Public Administration (HCM, RIPA)
	31. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Women & Child Development (ICDS)
	32. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Rajasthan State Road Transport Corporation
	33. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Rural Development
	34. Analyst cum Programmer (Deputy Director), Devasthan Vibhag
8. Alwar	11. Tehsildar, Tijara
	12. Sub Registrar, Bhiwadi
	13. Tehsildar, Kishangarh Bas
	14. NaibTehsildar, Kotkasim
	15. Chief Block Education Officer, Kishangarh Bas
	16. Chief Block Education Officer, Kotkasim
	17. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Mundawar
	18. Child Development Project Officer, Mundawar
	19. Principal, Government Senior Secondary School, Jasai
	20. Principal, Government Senior Secondary School, Pehal
	21. Principal, Government Senior Secondary School, Behroj
	22. Principal, Government Senior Secondary School, Peepli
	23. Principal, Government Senior Secondary School, Siyakhoh
	24. Principal, Government Senior Secondary School, Ulahedi
	25. Associate Professor, Government College, Behror

	26. Associate Professor, Government College, Behror
	27. Associate Professor, Government College, Behror
	28. Associate Professor, Government College, Behror
	29. Principal, Government Senior Secondary School, Saato, Neemrana
	30. Principal, Government Senior Secondary School, Khohri, Behror
	31. Principal, Government Senior Secondary School, Hudia Kala, Neemrana
	32. Principal, Government Senior Secondary School, Kaysa, Neemrana
	33. Principal, Government Senior Secondary School, Guthi, Behror
	34. Naib Tehsildar, Bahadarpur
	35. Naib Tehsildar, PTS Devkheda, Alwar
	36. Additional District Education Officer, Secondary Education, Alwar
	37. Additional District Education Officer, Elementary Education, Alwar
	38. Naib Tehsildar, Barodameo
	39. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Ramgarh
	40. Naib Tehsildar, Raini
	41. Naib Tehsildar, Laxmangarh
9. Bharatpur (SC)	11. Tehsildar, Kathumar
	12. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Kathumar
	13. Child Development Project Officer, Kathumar
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Pahadi
	15. Tehsildar, Nagar
	16. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Nagar
	17. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Kumher
	18. Tehsildar, Deeg
	19. Child Development Project Officer, Deeg
	20. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Kumher
	21. Tehsildar, Bharatpur
	22. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Sewar
	23. Tehsildar, Nadbai
	24. Child Development Project Officer, Nadbai
	25. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Nadbai
	26. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bhusawar
	27. Tehsildar, Weir
	28. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Roopwas
	29. Tehsildar, Bayana
	30. Block Development Officer, Deeg
	31. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Weir
	32. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Bayana
	33. Child Development Project Officer, Weir
	34. Child Development Project Officer, Bayana
10. Karauli-Dholpur (SC)	11. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Mandrail
	12. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Dholpur
	13. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Saipau
	14. Chief Block Education Officer, Baseri
	15. Block Education Officer, Bari
	16. Block Education Officer, Dholpur
	17. Executive Engineer, Public Works Department, Rajakhera
	18. Tehsildar, Totabhim

	19. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Todabhim
	20. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Nadoti
	21. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Hindaun
	22. Child Development Project Officer, Hindaun
	23. Commissioner, Nagar Parishad, Hindaun
	24. Executive Engineer, Public Works Department, Hindaun
	25. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Karauli
	26. Chief Block Education Officer, Panchayat Samiti, Karauli
	27. Tehsildar, Sapotra
	28. Tehsildar, Hindaun
	29. Tehsildar, Todabhim
	30. Tehsildar, Karauli
	31. Tehsildar, Saipau
	32. Child Development Project Officer, Dholpur
11. Dausa (ST)	11. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Ramgarh Pachwara
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Nangal Rajawatan
	13. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishat, Dausa
	14. Superintending Engineer, Water Shed, Dausa
	15. Tehsildar Sikrai
	16. Tehsildar, Dausa
	17. Tehsildar, Lawan
	18. Tehsildar, Lalsot
	19. Tehsildar, Thanagazi
	20. Tehsildar, Bassi
	21. Tehsildar, Chaksu
	22. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Sikrai
	23. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Thanagazi
	24. Block Social Security Officer, Sikrai
	25. Child Development Project Officer, Women & Child Development Department, Bandikui
	26. Additional Chief Block Education Officer, Bandikui
	27. Assistant Engineer, Panchayat Samiti, Mahwa
12. Tonk-Sawai Madhopur	11. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Deoli
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Piploo
	13. Deputy Principal, APRTS, Tonk
	14. Land Settlement Officer, Tonk
	15. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bonli
	16. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Malarna Dungar
	17. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Chouth Ka Barwara
	18. Additional Collector & Additional District Magistrate, Gangapur City
	19. Tehsildar, Malpura
	20. Tehsildar, Todaraisingh
	21. Tehsildar, Niwai
	22. Assistant Collector & Executive Magistrate, Gangapurcity
	23. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Todaraisingh
	24. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Sawai Madhopur
	25. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Tonk

	26. Additional Collector & Additional District Magistrate (Bisalpur), Deoli
13. Ajmer	11. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Ajmer
	12. Deputy Commissioner, Ajmer Development Authority, Ajmer (South)
	13. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bhinay
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Rupangarh
	15. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Pisangan
	16. Deputy Commissioner, Ajmer Development Authority, Ajmer (North)
	17. Settlement Officer, Ajmer
	18. Deputy Registrar, Revenue Board, Ajmer
	19. Deputy Director (Regional) Local Body Department, Ajmer
	20. Deputy Commissioner (Administration) Nagar Nigam Ajmer
	21. Deputy Director, Woman & Child Development Department, Ajmer
14. Nagaur	11. Tehsildar, Deedwana
	12. Tehsildar, Khinwsar
	13. Tehsildar, Makrana
	14. Tehsildar, Parbatsar
	15. Tehsildar, Nawan
	16. Tehsildar, Kuchaman
	17. Naib Tehsildar, Deh
	18. Naib Tehsildar, Bhakari
	19. Naib Tehsildar, Maulasar
	20. Naib Tehsildar, Mundwa
	21. Naib Tehsildar, Nagaur
	22. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Nagaur
	23. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Mundwa
	24. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Jayal
	25. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Makrana
	26. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Parbatsar
	27. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Kuchaman
	28. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Deedwana
	29. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Ladnun
	30. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Khinwsar
	31. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Nawan
	32. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Maulasar
15. Pali	11. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Pali
	12. Revenue Appealant Officer, Pali
	13. Secretary, Urban Development Trust, Pali
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Raipur
	15. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Desuri
	16. Tehsildar, Sojat
	17. Tehsildar, Pali
	18. Tehsildar, Bali
	19. Tehsildar, Sumerpur
	20. Tehsildar, Marwar Junction
	21. Tehsildar, Osian
	22. Tehsildar, Bhopalgarh
	23. Tehsildar, Bilara
	24. Tehsildar, Piparcity

	25. Tehsildar, Raipur
	26. Tehsildar, Rani
	27. Tehsildar, Desuri
	28. Tehsildar, Rohat
16. Jodhpur	11. Deputy Director, Local Body, Jodhpur
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Balesar
	13. Deputy Commissioner, Nagar Nigam, Jodhpur
	14. Deputy Commissioner, Nagar Nigam, Jodhpur
	15. Deputy Commissioner, Jodhpur Development Authority, Jodhpur
	16. Deputy Director, Women & Child Development Department, Jodhpur
	17. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bap
	18. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Pipar City
	19. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bhaniyana
	20. Registrar, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
	21. Additional Commissioner, Excise Zone, Jodhpur
	22. Deputy Commissioner, Jodhpur Development Authority, Jodhpur
	23. Protocol Officer, Jodhpur
	24. Tehsildar, Dechu
	25. Naib Tehsildar, Kudi
	26. Naib Tehsildar, Balesar
	27. Naib Tehsildar, Luni
	28. Naib Tehsildar, Jhanwar
	29. District Excise Officer, Jodhpur
	30. Tehsildar, Pipar City
	31. Registrar, Ayurved University, Jodhpur
	32. Registrar, National Law University, Jodhpur
	33. Secretary, Jodhpur Development Authority, Jodhpur
	34. Additional Collector & Additional District Magistrate, City-II, Jodhpur
	35. Regional Transport Officer (RTO), Jodhpur
17. Barmer	11. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Barmer
	12. Revenue Appellant Officer, Barmer
	13. Secretary, Urban Improvement Trust (UIT), Barmer
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Ramsar
	15. Land Acquisition Officer, C.I.E.L., Barmer
	16. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Fatehgarh
18. Jalore	11. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Jalore
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Sayala
	13. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Sirohi
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Sheoganj
	15. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Pindwara
19. Udaipur (ST)	11. Tehsildar, Badgaon
	12. Tehsildar, Sarada
	13. Tehsildar, Rishabdev
	14. Naib Tehsildar, Barapal
	15. District Information Officer, NIC, Udaipur
	16. Additional Collector & Additional District Magistrate (City), Udaipur
20. Banswara (ST)	11. Tehsildar, Ghatol
	12. Tehsildar, Garhi

	13. Tehsildar, Banswara
	14. Tehsildar, Bagidora
	15. Tehsildar, Khushalgarh
	16. Tehsildar, Dungarpur
	17. Tehsildar, Sagwara
	18. Tehsildar, Simalwara
21. Chittorgarh	11. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Dungla
	12. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Gangrar
	13. Naib Tehsildar, Chotisadri
	14. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Barisadri
	15. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Mavli
	16. Tehsildar, Rashmi
	17. Tehsildar, Chittorgarh
	18. Tehsildar, Vallabhnagar
	19. Tehsildar, Pratapgarh
	20. Tehsildar, Gangrar
	21. Tehsildar, Nimbahera
	22. Tehsildar, Barisadri
	23. Tehsildar, Kapasan
	24. Tehsildar, Bhadesar
22. Rajsamand	11. Tehsildar, Beawar
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Riyabari
	13. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Riyabari
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Amet
	15. Tehsildar, Railmagra
	16. Sampada Adhikari, Mandir Mandal, Nathdwara
	17. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Rajsamand
	18. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Deogarh
	19. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Relmagra
	20. Tehsildar, Degana
	21. Tehsildar, Jaitaran
	22. Tehsildar, Raipur
	23. Tehsildar, Khamnore
	24. Tehsildar, Bhim
	25. Tehsildar, Amet
	26. Tehsildar, Rajsamand
	27. Tehsildar, Kunwariya
	28. Tehsildar, Nathdwara
	29. Tehsildar, Charbhuj
	30. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Bhim
	31. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Deogarh
	32. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Kumbhalgarh
	33. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Amet
	34. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Railmagra
	35. Block Development Officer, Panchayat Samiti, Khamnore
	36. Assistant Engineer, Panchayat Samiti, Degana
23. Bhilwara	11. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bijoliya
	12. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Gulabpura



	13. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Kotri
	14. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Raipur
	15. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Badnor
24. Kota	11. Deputy Secretary (II), Urban Improvement Trust (UIT), Kota
	12. Deputy Inspector General, Registration & Stamps, Kota
	13. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Kota
	14. District Supply Officer, Kota
	15. Deputy Secretary (I), Urban Improvement Trust (UIT), Kota
	16. Deputy Commissioner (Head Quarter), Nagar Nigam, Kota
	17. District Excise Officer, Kota
	18. Land Settlement Officer, Kota
	19. Deputy Director, Local Bodies, Kota
	20. District Transport Officer, Kota
	21. Registrar, Vardhaman Mahaveer Open University, Kota
	22. Deputy Director, Women & Child Development, Kota
	23. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Kanwas
	24. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Digod
	25. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Talera
	26. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Lakheri
	27. Additional Chief Executive Officer, Zila Parishad, Bundi
	28. Tehsildar, Ramganjmandi
	29. Tehsildar, Kanwas
	30. Tehsildar, Talera
25. Jhalawar-Baran	11. Tehsildar, Pachpahar
	12. Tehsildar, Gangdhar
	13. Tehsildar, Pirawa
	14. Tehsildar, Sunel
	15. Tehsildar, Bakani
	16. Naib Tehsildar, Asnawar
	17. Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Aklera
	18. Tehsildar, Manoharthana

All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officers with the completion of the General Elections to the Lok Sabha, 2019.

[No. 434/RJ-HP/2018(2)]

By Order,  
RAHUL SHARMA, Secy.